

Date: February 11, 2023

1. The Manager- Listing
National Stock Exchange of India Limited
(Scrip Code: NAUKRI)

2. The Manager- Listing BSE Limited

(Scrip Code: 532777)

Sub: <u>Intimation of Publication of Un-audited Standalone & Consolidated Financial Results for</u> the Quarter & Nine months ended December 31, 2022

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the copy of the newspaper publication of Un-audited Standalone & Consolidated Financial Results for the Quarter & Nine-months ended December 31, 2022 published in the following editions: -

- Financial Express (National Daily newspaper) on February 11, 2023
- Jansatta (Daily newspaper of the State) on February 11, 2023

Submitted for your information & records.

Thanking You,

Yours faithfully,

For Info Edge (India) Ltd.

Jaya Bhatia Company Secretary & Compliance Officer FINANCIAL EXPRESS


FY22 BALANCE SHEET

Bounce's revenue flat, losses contract

Firm plans to reach newer cities, other nations going ahead

TUSHAR GOENKA Bengaluru, February 10

ELECTRIC SCOOTER COM-PANY Bounce reported a flat operating revenue at ₹15 crore in FY22 while its losses reduced around 20% to ₹243 crore from ₹306 crore in financial year 2021, regulatory filings with the Registrar of Companies (RoC) showed. The company had started





previous business model to a grinding halt after the Covid-19 pandemic.

The change in business model likely resulted in top

line of the company not moving in FY22 and also resulting in lower total expenses. In the fiscal, the Bengaluru-based company's total expenses fell 23% to ₹277 crore from ₹359 crore in FY21.

Advertising, legal and other components accounted for the remaining expenses, around ₹232 crore. In FY22, the company's cash flow from operations also reduced to ₹158 crore down 24% from ₹207 crore in FY21.

benefit Employee expenses were the single largest cost contributor for the company in the year at

₹45 crore, down from ₹137 crore it had spent in FY21, thanks to the mass layoffs the Vivekananda Hallekereled company undertook as it let go of at least 130 employees. That number was likely to increase as reports suggest Bounce has let go of another 250 employees, or around half its workforce, in

The company currently claims to India's first electric scooter manufacturer with a swappable battery and is expanding its reach to cities like Hyderabad and even to other countries.

January.

app for farmers launched produce directly through the app without the hassle of price auctions or lengthy credit

Pune, February 10

E-GROCERY STARTUP Zepto on Friday announced the launch of Zepto Bloom, a quick commerce app for farmers. The app was launched in Manchar, Pune with Zepto onboarding 300 farmers from Maharashtra on the app.

Zepto said the farmer engagement app would digitise and streamline processes like onboarding, sowing, selling, supply of fresh yields and payouts. Collection centres placed across villages will enable farmers to sell their transactions with buyers in the market. Through the app, farmers could also choose their trade destination with complete visibility of the prices for their produce.

Zepto's quick commerce

Vinay Dhanani, chief operating officer, Zepto said, demand for fruits and vegetables among their customers had grown exponentially with more than 50% of Zepto's orders comprising fresh fruits and vegetables, making it one of the strongest categories for the company.

The app would focus on value creation for India's farmer community through quick commerce by streamlining their supplies and yields. The farmer app would be a one-stop solution that will cater to the farmers' needs from tracking the crop cycle right from sowing to harvesting to receiving seamless payments on the sale of the produce. The farmers will have access to agronomist support at the time of production, clarity on demand and grading aligned to the harvesting period, assured buyback, and on-ground support.

Mumbai, Bengaluru among top 5 residential markets in Asia-Pacific

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, February 10


MUMBAIAND BENGALURU are among five best performing residential markets in Asia Pacific in terms of annual price growth with 7% increase in rates in both the cities, according to Knight Frank.

In its Asia-Pacific Residential Review Index, real estate consultant Knight Frank said that Mumbai and Bengaluru have found place in the top five best performing Asia-Pacific residential markets in terms of annual price growth in H2 (second half) of 2022.

As many as 14 out of 23 Asia-Pacific (APAC) cities have recorded positive annual price growth with Metro Manila ranked as the best-performing Asia-Pacific market with 24% year-on-year (y-o-y) growth.

Singapore was at second position with 9.3% growth in price, while Tokyo ranked third with 9% appreciation in residential prices.

"Mumbai and Bengaluru shared the 4th position on the Asia-Pacific Residential Review Index as both registered a price growth of 7 per



MANILA TOPS

- Knight Frank said Mumbai, Bengaluru have found place in the top five in terms of annual price growth in H2
- As many as 14 out of 23 Asia-Pacific cities have recorded positive annual price growth

centy-o-yin H2 2022. Delhi found a place in the top 10 best performing APAC markets with price growth of 6.8% y-o-y in H2 2022,"the consultant said.

Prices in the residential markets of Bengaluru, Mumbai and Delhi are expected to grow moderately in the next 12 months, it added.



RAIL VIKAS NIGAM LIMITED

(A Govt. of India Enterprise)

Registered office: 1st Floor, August Kranti Bhawan, Bhikaji Cama Place, R. K. Puram, New Delhi, South Delhi -110066

E-mail: investors@rvnl.org Website: www.rvnl.org; CIN: L74999DL2003G0I118633

			Stand	dalone		90	Consolidated						
Al .	Quarter Ended			Nine Months Ended Yo		Year Ended		Quarter Ended	ed Nine Months Ended		ths Ended	Year Ended	
SI. Particulars	31.12.2022	30.09.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.03.2022	31.12.2022	30.09.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.03.2022	
****	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	
Revenue from Operations	5010.67	4,908.90	5,049.14	14,560.32	12,944.07	19,381.71	5,012.09	4,908.90	5,049.24	14,561.74	12,944.17	19,381.71	
2. Other Income	283.84	217.69	210.76	742.70	589.61	809.26	280.91	221.93	210.99	740.42	590.25	800.23	
3. Total Income	5294.51	5,126.59	5,259.90	15,303.02	13,533.68	20,190.97	5,293.00	5,130.83	5,260.23	15,302.16	13,534.42	20,181.94	
4. Profit Before Tax (PBT)	406.00	398.33	381.42	1,162.87	932.77	1,406.10	447.86	480.98	392.73	1,302.06	1,022.32	1,502.17	
5. Profit After Tax (PAT)	341.02	298.58	281.78	922.69	715.20	1,087.21	382.42	381.22	293.01	1,061.30	804.52	1,182.69	
6. Total Comprehensive Income/(loss) for the period/year	342.83	296.56	281.77	923.55	714.92	1,087.01	384.23	379.20	293.00	1,062.16	804.24	1,182.51	
7. Paidup Equity Share Capital	2,085.02	2,085.02	2,085.02	2,085.02	2,085.02	2,085.02	2,085.02	2,085.02	2,085.02	2,085.02	2,085.02	2,085.02	
8. Other Equity (excluding Revaluation Reserves)						3,546.39					11112	4,312.38	
9. Earning Per Share (EPS)*									-			1	
Basic (Rs.)	1.64	1.43	1.35	4.43	3.43	5.21	1.83	1.83	1.41	5.09	3.86	5.67	
Diluted (Rs.)	1.64	1.43	1.35	4.43	3.43	5.21	1.83	1.83	1.41	5.09	3.86	5.67	

Statement of Standalone/ Consolidated Financial Results for the Quarter and Nine Months Ended 31/12/2022

EPS not annualised for the guarter ended on 31.12.22.30.09.22& 31.12.21 and Nine Months Ended 31.12.22 and 31.12.21 1) The above Standalone/ Consolidated financial results have been reviewed and recommended by the Audit

Committee and approved by the Board of Directors in their meeting held on 10th February, 2023. As required under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended), the Statutory Auditors of the company have

conducted a limited review of the above financial results for the quarter ended 31st December, 2022. 3) Figures of current quarter are balancing figures between published year to date unaudited figures up to third quarter of the financial year 2022-23 and published unaudited figures up to second quarter of the financial

4) The Standalone/Consolidated financial results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind AS) as notified under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standard) Rules, 2015 and Companies (Indian Accounting Standards) amendment Rules, 2016 and other recognized accounting practices and policies to the extent applicable. The Company /Group operates in a single reportable operating Segment' Development of Rail Infrastructure'.

hence there are no separate operating segments as per Ind AS 108 - Operating Segments. Section 115BAA has been inserted in the Income Tax Act, 1961 vide Taxation laws (Amendment) Act, 2019.

which enables domestic companies to exercise a non-reversible option to pay corporate tax at reduced rates effective 1st April, 2019 subject to certain conditions. The company has not exercised this option yet.

7) In respect of Krishnapatnam Railway Company Limited (KRCL), RVNL is entitled for departmental charges @ 5% of the total cost of work as per the detailed estimate/revised estimate/completion estimate as provided in paragraph 1137 of the Code for Engineering Department of Indian Railways. RVNL has received representation from KRCL for waiver of the aforesaid departmental charges apart from other relaxations from contractual obligations. Based on the representation made by KRCL, the management of the Company has decided to keep in abeyance the claim of the said departmental charges pending detailed review of the subject matter by the Board of Directors of the Company

8) Wherever necessary figures for the previous periods/ year have been regrouped, reclassified/recasted to conform to the

classification of the current period/year. 9) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Standalone/Consolidated Financial Results filed with Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The complete format of the Financial Results is available on the Stock Exchange websites at www.bseindia.com, www.nseindia.com and on Company's

For and on behalf of Rail Vikas Nigam Limited

Pradeep Gaur Chairman & Managing Director DIN:07243986

(naukri.com



infoedge

99acres

website www.rvnl.org.



Jeevansathi



Place: New Delhi

Dated: 10.02.2023

INFO EDGE (INDIA) LIMITED

Regd. Office: Ground Floor, GF-12A, 94, Meghdoot Building, Nehru Place, New Delhi - 110019

CIN: L74899DL1995PLC068021, Tel no.: 0120-3082000, Fax: 0120-3082095, Website: www.infoedge.in, Email: investors@naukri.com

STATEMENT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2022

Amount in ₹ (Mn) **Results on Standalone Basis Results on Consolidated Basis Particulars** 3 months Corresponding **Preceding** Corresponding 9 months 9 months Previous 3 months Preceding 9 months 9 months **Previous** 3 months ended ended 3 months ended ended ended 3 months 3 months ended ended ended year ended year ended 31/12/2021 31/12/2021 in the previous 31/03/2022 in the previous 31/03/2022 31/12/2022 ended 31/12/2022 31/12/2022 ended 31/12/2022 30/09/2022 year 31/12/2021 year 31/12/2021 30/09/2022 (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Audited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Audited) 1. Total Income from operations (net) 15,890.26 5,551.82 5,318.23 4,160.81 15,946.64 11,069.47 15,624.59 5,895.17 6,041.25 4,214.18 17,409.07 11,160.79 2. Net profit for the period 2,440.17 2,224.74 1,527.20 6,606.43 4,298.17 5,892.77 5,112.31 1,486.74 26,248.15 9,993.54 27,396.74 30,254.04 (before tax and exceptional items) 101,008.98 3. Net profit/(loss) for the period (319.83)994.57 142,001.14 2,224.74 3,705.47 3,846.43 99,414.38 1,486.74 49,052.16 5,875.80 134,398.08 before tax (after exceptional items) (842.61)2,322.61 89,225.47 939.02 4,327.35 128,822.30 4. Net profit/(loss) for the period after 1,680.96 3,363.71 88,018.51 464.02 46,326.88 121,626.19 96,225.91 121,120.77 (3,711.47)10,924.39 4,323.86 (21,020.22)153,077.43 (3,996.42)4,707.48 (32,708.66)185,328.58 Total comprehensive income/(loss) 45,661.54 for the period [comprising profit for the period (after tax) and other comprehensive income/(loss) (after tax)] 6. Equity Share Capital 1,291.84 1,289.84 1,287.84 1,291.84 1,287.84 1,287.84 1,291.84 1,289.84 1,287.84 1,291.84 1,287.84 1,287.84 138,434.13 171,126.55 7. Reserve (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance sheet of the previous year Earning per share (of ₹ 10 each) (not annualised) (a) Basic - Profit/(loss) after tax 18.04 693.25 12.85 942.74 991.38 (6.54)13.05 26.14 684.04 (9.05)8.00 357.64 (after exceptional items) (a) Basic - Profit after tax (before 14.89 13.05 9.21 39.48 35.78 22.93 8.00 198.88 44.84 211.47 223.41 26.41 exceptional items) (b) Diluted - Profit/(loss) after tax 25.97 17.96 679.58 689.20 (9.05)7.96 355.31 12.79 985.58 (6.54)12.98 936.60 (after exceptional items)

Note:

- 1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as modified by circular no. CIR/CFD/FAC/62/2016 dated
- July 05, 2016. The full format of the Quarterly financial results are available on the Stock Exchange websites (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and on the company's website (www.infoedge.in).

39.30

9.15

2. The above results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind AS) as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 3 of Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and Companies (Indian Accounting Standards). Accounting Standards) Amendment Rules, 2016.

26.24

Place: Noida Date: February 10, 2023

financialexp.epap.in

(b) Diluted - Profit after tax (before

exceptional items)



12.98

14.82



22.82

35.57



197.58

7.96



44.63



210.09

222.10

Hitesh Oberoi Managing Director

DIN: 01189953

लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति पर दबाव डाल रही सरकार: खड़गे

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 10 फरवरी।

J&K Bank

करनाल (उधारकर्ता / बंधककर्ता)

कांग्रेस अध्यक्ष मिल्लकार्जुन खड्गे ने कहा कि उनकी पार्टी अडाणी समूह से जुड़े मामले को संसद में उठाने के साथ संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की मांग करती रहेगी। खड़गे ने यह भी आरोप लगाया कि मोदी सरकार लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति पर दबाव डालकर सच छिपाने का षड्यंत्र कर रही है और जेपीसी जांच की मांग दबाने का प्रयास कर रही है।

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और मेरी ओर से कही गई बातों को कार्यवाही से निकाल दिया गया। मैंने नौ लाइन की शायरी की थी उसकी सात लाइन भी काट दीं। अगर साहित्य से जुड़ी चीजों को भी संसद में नहीं रख सकते तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहा हैं। खडगे का कहना था कि अपने 51 साल के विधायी कार्यकाल में देख रहा हं कि मेरी बातों को कार्यवाही से हटा दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति पर मोदी सरकार अनर्गल दबाव डालकर सच छिपाने का षड्यंत्र

दी जम्म एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड

प्रंचल कार्यालय दिल्ली, प्लॉट नं. 132–134,

सेक्टर 44, गुड़गांव (हरियाणा) ,भारत

GSTIN: 06AAACT6167G1ZB, फोन 91 (0)0124-4715800, फैक्स : +91 (0)0124-4715800

ई मेल : iapmd.del@jkbmail.com, डब्ल्यू: www.jkbank.net

(कब्जा-सूचना)

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(1) के

के साथ पठित सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के तहत सूचना तहत

चंकि वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभतिकरण और पनर्निर्माण तथा प्रतिभति हित प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम, 2002 के तहत जम्म और कश्मीर बैंक लिमिटेड के अधिकत अधिकारी

होने के नाते तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित, धारा

13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के तहत दिनांक 20.08.2022 को एक मांग नोटिस

जारी किया जिसमें उधारकर्ता (ओं) गारंटर(रों) और बंधक(ओं) अर्थात निम्न को कहा गया थाः मैसर्स डी एस ट्रेडर्स, शॉप नंबर 167, शास्त्री मंडी, नॉवेल्टी रोड करनाल (वर्तमान में

2. श्री सुरेश कुमार पुत्र फुला राम, निवासी: मकान नंबर 108, गली नंबर 8, राजीव कॉलोनी

3. श्री राजिंदर कुमार पुत्र राम कृष्ण, निवासीः मकान नंबर 184/14, जट्टू मोहल्ला करनाल

4. श्री सतबीर सिंह पत्र प्रकाश सिंह, निवासी मकान नंबर 6. न्य चमन गार्डन, करनाल

को उधारकर्ता के खातों में 01.08.2022 तक बकाया रु. 9,16,224.55 रुपये (नौ लाख सोलह

हजार दो सौ चौबीस रुपये और पचपन पैसे मात्र)की राशि एवं भविष्य के ब्याज और अन्य

जनता को नोटिस दिया जाता है कि जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड के अधोहस्ताक्षरी ने उक्त

नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों

का प्रयोग करते हुए 6 फरवरी, 2023 को नीचे वर्णित बंधक संपत्ति पर कब्जा कर लिया है

उधारकर्ता को विशेष रूप से और आम जनता को एतद्दवारा आगाह किया जाता है कि

उक्त संपत्तिं का लेन-देन न करें और उक्त संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन कुल राशि

रु.९,६६,४१५.५५ (रुपए नौ लाख छियासट हजार चार सौ पंद्रह और पैसा पचपन मात्र)की

राशि,साथ ही 01.01.2023 से उस पर भविष्यगत ब्याज सहित अन्य अर्जित शुल्क या वर्जित

प्रतिभित परिसंपत्तियों को भनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13

की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर उधारकर्ता(ओं) का ध्यान आकर्षित किया जाता है

(बंधक विलेख / किसी मान्यता सहित नवीनतम विवरण में प्रदान की गई अनुसूची के

1) जनकपुरी , करनाल नगर निगम, हांसी रोड करनाल के अंदर स्थित 120 वर्ग गज व


प्लॉट के आकार में बिक्री विलेख संख्या 3970/1, दिनांक 11.08.2010 के तहत पंजीकृत खसरा संख्या 4708 (1बी-1बी) और खसरा संख्या 4709 (4बी-10बी) से युक्त भूमि में 2

20 / 50 बिस्वाई 2 20 / 50 / 111 हिस्से के भूखंड / भूमि का पंजीकृत बंधक।

किया जाना है, दि जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

शल्कों के साथ उक्त नोटिस की तिथि से 60 दिनों के भीतर चकाने के लिए कहा है। उक्त उधारकर्ता उक्त राशि का भूगतान करने में विफल रहे हैं, एतद्दवारा उधारकर्ता और आम

शॉप नंबर 342, पहली मंजिल, नई अनाज मंडी करनाल), हरियाणा।



कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी और मेरी ओर से कही गई बातों को कार्यवाही से निकाल दिया गया।

कर रही है। खडगे ने सवाल किया कि क्या अडाणी घोटाले की जांच नहीं होनी चाहिए? क्या एलआइसी का पैसा, जो अडाणी की कंपनियों में

लगा है, उसकी गिरती कीमतों पर सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? स्टेट बैंक व दूसरे बैंकों द्वारा अडाणी को दिए गए 82,000 करोड़ रुपए कर्ज

के बारे में सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? क्या यह नहीं पूछना चाहिए कि अडाणी के शेयरों में 32 फीसद से ज्यादा गिरावट के बावजूद एलआइसी व स्टेट बैंक का रुपया अडाणी एफपीओ में क्यों लगवाया गया?

उन्होंने कहा कि क्या यह नहीं पूछा जाना चाहिए कि 'टैक्स हैवेन' से अडाणी की कंपनियों में आने वाला हजारों करोड़ रुपया किसका है? क्या कारण है कि केंद्र सरकार संसद में अडाणी शब्द भी नहीं बोलने देती? क्या कारण है कि रिजर्व बैंक, सेबी, ईडी, एसएफआइओ, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, आयकर विभाग और सीबीआइ सबको लकवा मार गया है और वे अडाणी की जांच के नाम पर आंखें मंदे बैठे हैं?

जनसत्ता संवाददाता देहरादन 10 फरवरी

देहरादून में गुरुवार को बेरोजगार युवा संघ आंदोलनकारी युवाओं पर पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में शुक्रवार को उत्तराखंड बंद का मिलाजुला असर रहा। देहरादून में कुछ जगह पर दुकानें बंद रहीं।

घंटाघर के आसपास और कांग्रेस भवन के आसपास राजपुर रोड की तरफ दुकानें बंद दिखाई दीं जबिक कई अन्य जगह पर दुकानें खुली दिखाई दीं। इसके अलावा कुमाऊं मंडल के नैनीताल हल्द्वानी पिथौरागढ गढवाल मंडल के उत्तरकाशी पौडी टिहरी आदि जगह पर भी बंद

कांग्रेस ने राज्य की भाजपा सरकार पर युवाओं को रोजगार देने की बजाय उन पर पुलिस लाढियां बरसाने का आरोप लगाया

युवाओं पर पुलिस की लाठियां चलने के

खिलाफ बंद का मिलाजुला असर

मिलाजुला रहा। हरिद्वार क्षेत्र में तो बंद बिल्कुल नाकाम रहा। उत्तराखंड के मैदानी जिलों से बंद का ज्यादा असर पर्वतीय जिलों में देखने को मिला. बंद में बेरोजगार संघ के अलावा कांग्रेस समाजवादी पार्टी आम आदमी पार्टी और उत्तराखंड क्रांति दल भी शामिल हए

वहीं देहरादून में कचहरी में विधानसभा में कांग्रेस के उप नेता भुवन चंद्र कापड़ी ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के सामने शहीद पार्क के आगे धरना दिया और आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज का

जोरदार विरोध किया। भाजपा सरकार पर युवाओं को रोजगार देने की बजाय उन पर पुलिस लाठियां बरसाने का आरोप लगाया और कहा कि किस तरह से राज्य में नकल का धंधा भाजपा के राज्य में तेजी से फल-फुल रहा है और उसे दबाने के लिए पूरी सरकार लगी हुई है जबिक छोटी मछलियों को पकड़ा जा रहा है।

बड़ी मछलियों को बचाने के लिए सरकार पूरे जोर-शोर से लगी है। उत्तरकाशी में राज्य के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल को बैठक करनी थी युवाओं के उत्तराखंड बंद को देखते हुए प्रेमचंद्र अग्रवाल बैठक में भारी सुरक्षा इंतजाम के बीच आए और जिला मख्यालय के दरवाजे बंद कर दिए गए।

(रू. करोड, में)

गुणवत्ता, गति एवं पारदर्शिता (A Government of India Enterprise)

रेल विकास निगम लिमिटेड Rail Vikas Nigam Limited

(भारत सरकार का उपक्रम)

पंजीकृत कार्यालयः प्रथम तल, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर. के. पुरम, नई दिल्ली, दक्षिण दिल्ली - 110066

रेल विकास निगम लिमिटेड

ईमेल: investors@rvnl.org, वेबसाइट : www.rvnl.org सीआईएन: L74999DL2003GOI118633,

31.12.2022 को समाप्त तिमाही एवं नौमाही हेतु (एकल एवं समेकित) अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का संक्षिप्त विवरण

समाप्त तिमाही समाप्त नौमाही समाप्त तिमाही समाप्त नौमाही समाप्त वर्ष समाप्त वर्ष विवरण 31.12.2021 30.09.2022 31.12.2022 31.03.2022 31.12.2022 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2022 30.09.2022 31.12.2021 31.12.2021 31.03.2022 अलेखापरीक्षित) अलेखापरीक्षित) अलेखापरीक्षित) (अलेखापरीक्षित (अलेखापरीक्षित) (अलेखापरीक्षित) (अलेखापरीक्षित) अलेखापरीक्षित) (लेखापरीक्षित) (अलेखापरीक्षित) अलेखापरीक्षित) (लेखापरीक्षित) 5,012.09 1. प्रचालनों से राजस्व 4,908.90 5.049.14 14,560.32 12,944.07 19,381.71 5,049.24 14.561.74 12,944.17 5010.67 4.908.90 19,381.71 2. 283.84 217.69 210.76 742.70 589.61 809.26 280.91 221.93 210.99 740.42 590.25 800.23 अन्य आय 5,293.00 5,259.90 13,533.68 20,190.97 5,260.23 15,302.16 3. कुल आय 5294.51 5,126.59 15,303.02 5,130.83 13,534.42 20,181.94 4. कर पूर्व लाभ (पीबीटी) 398.33 381.42 1,162.87 932.77 1,406.10 447.86 480.98 392.73 1,302.06 1.022.32 1,502.17 406.00 5. कर पश्चात लाभ (पीएटी) 341.02 298.58 281.78 922.69 715.20 1,087.21 382.42 381.22 293.01 1,061.30 804.52 1,182.69 अवधि / वर्ष हेतु कुल सम्मिलित आय / (हानि) 296.56 342.83 281.77 923.55 714.92 1,087.01 384.23 379.20 293.00 1.062.16 804.24 1,182.51 2,085.02 2,085.02 2,085.02 7. प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी 2,085.02 2,085.02 2,085.02 2,085.02 2,085.02 2,085.02 2,085.02 2,085.02 2,085.02 संचेय (पूर्नमूल्यन संचेय छोड़कर) 3,546.39 4,312.38 9. प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस)* 1.43 5.21 5.67 1.64 1.83 3.86 मूल (रु.) 1.83 तनुकृत (रु.) 1.43 4.43 3.43 5.21 1.83 5.09 3.86 5.67 *ईपीएस 31.12.22, 30.09.22 एवं 31.12.21 को समाप्त तिमाही एवं 31.12.22 एवं 31.12.21 को समाप्त नौमाही की अवधि हेत् वार्षिककृत नहीं है।

 उपरोक्त एकल / समेकित वित्तीय परिणामों का पुनरीक्षण और सुझाव लेखापरीक्षा समिति द्वारा और अनुमोदन निदेशक मंडल द्वारा उनकी दिनांक 10 फरवरी 2023 को सम्पन्न बैठक में किया गया है।

2) जैसाकि भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के तहत अपेक्षित है, कम्पनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा 31 दिसंबर, 2022 को समाप्त तिमाही हेतु उपरोक्त वित्तीय परिणामों का सीमित पुनरीक्षण किया गया है।

3) वर्तमान तिमाही के आंकडे वित्त वर्ष 2022-23 की तीसरी तिमाही तक प्रकाशित वर्ष से लेकर आज तक के अलेखापरीक्षित आंकडों और वित्तीय वर्ष 2022-23 की दूसरी तिमाही तक प्रकाशित अलेखापरीक्षित आंकडों के बीच संतुलन कर रहे हैं।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की घारा 133 के साथ पठित कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 के निबन्धनों और यथासंभव अन्य मान्य लेखांकन पद्धतियों और नीतियों के अधीन अधिसूचित है।

कम्पनी / समूह एक एकल प्रतिवेदनीय प्रचालन खंड 'रेल अवसंरचना का विकास' में परिचालन करता है। अतः आईएनडी एएस 108 – प्रचालन खंड के अनुसार कोई पृथक प्रचालन खंड नहीं है।

6) दिनांक 1 अप्रैल, 2019 को जारी कराधान विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2019 के माध्यम से आय कर अधिनियम, 1961 में धारा 115बीएए अंतर्वेशित की गई है, जो घरेलू कम्पनियों को कुछ शर्तों के अधीन, 2019 से प्रभावी घटी दरों पर कार्पोरेट

टैक्स का भुगतान करने के गैर-परिवर्तनीय विकल्प का प्रयोग करने हेतु सक्षम बनाती हैं। कम्पनी ने अभी तक इस विकल्प का प्रयोग नहीं किया है।

7) "कृष्णापट्टनम रेलवे कंपनी लिमिटेड (केआरसीएल) के संबंध में, आरवीएनएल भारतीय रेलवे के इंजीनियरिंग विभाग के लिए संहिता के पैरा 1137 में दिए गए विस्तृत अनुमान/संशोधित अनुमान/पूर्णता अनुमान के अनुसार काम की कुल लागत के 5% की दर से विभागीय शुल्क के लिए हकदार है। आरवीएनएल को केआरसीएल से अनुबंध संबंधी दायित्वों से अन्य छूटों के अलावा उपरोक्त विभागीय प्रभारों की छूट के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। केआरसीएल द्वारा किए गए अभ्यावेदन के आधार पर, कंपनी के प्रबंधन ने उक्त विभागीय प्रभारों के दावे को कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा विषय वस्तु की विस्तृत समीक्षा के लिए लंबित रखने का निर्णय लिया

 एकल/समेकित वित्तीय परिणाम भारतीय लेखांकन मानक (आईएनडी – एएस) के अनुसार तैयार किए गए हैं, जैसाकि
 पूर्व अवधियों/वर्ष के आंकड़े, चालू अविध के वर्गीकरण के अनुरूप बनाने के लिए, जहां आवश्यक है, पुनर्समूहित/पुनर्वर्गीकृत/ पुनरव्यवस्थित किए गए हैं।

> 9) उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दायित्व और अन्य प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेन्जेज में प्रस्तुत किए गए तिमाही हेत् एकल / समेकित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का संक्षिप्त विवरण है। वित्तीय परिणामों का पूर्ण विवरण स्टॉक एक्सचेन्ज की वेबसाइट www.bseindia.com, www.nseindia.com और कम्पनी की वेबसाइट www.rvnl.org पर उपलब्ध है।

कृते एवं हिते रेल विकास निगम लिमिटेड

प्रदीप गाँड अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डीआईएन : 07243986

(naukri.com

प्राधिकत अधिकारी,

स्थानः नई दिल्ली

तिथि : 10 फरवरी, 2023

infoedge

99acres

♥shiksha

Jeevansathi.

INFO EDGE (INDIA) LIMITED

Regd. Office: Ground Floor, GF-12A, 94, Meghdoot Building, Nehru Place, New Delhi - 110019

CIN: L74899DL1995PLC068021, Tel no.: 0120-3082000, Fax: 0120-3082095, Website: www.infoedge.in, Email: investors@naukri.com

STATEMENT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2022

317(1)	EIVIEIVI OI 317	(145) (20142) (1	TO CONSOLIDATE			LJOETS TOR T	THE QUITATE TO	WIND THINE WICH	THIS EINDED BECEN	,, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
	9										An	nount in ₹ (Mn)		
	Results on Standalone Basis							Results on Consolidated Basis						
Particulars	3 months ended 31/12/2022	Preceding 3 months ended 30/09/2022	Corresponding 3 months ended in the previous year 31/12/2021	9 months ended 31/12/2022	9 months ended 31/12/2021	Previous year ended 31/03/2022	3 months ended 31/12/2022	Preceding 3 months ended 30/09/2022	Corresponding 3 months ended in the previous year 31/12/2021	9 months ended 31/12/2022	9 months ended 31/12/2021	Previous year ended 31/03/2022		
	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)		
1. Total Income from operations (net)	5,551.82	5,318.23	4,160.81	15,946.64	11,069.47	15,624.59	5,895.17	6,041.25	4,214.18	17,409.07	11,160.79	15,890.26		
2. Net profit for the period (before tax and exceptional items)	2,440.17	2,224.74	1,527.20	6,606.43	4,298.17	5,892.77	5,112.31	1,486.74	26,248.15	9,993.54	27,396.74	30,254.04		
3. Net profit/(loss) for the period before tax (after exceptional items)	(319.83)	2,224.74	3,705.47	3,846.43	99,414.38	101,008.98	994.57	1,486.74	49,052.16	5,875.80	134,398.08	142,001.14		
4. Net profit/(loss) for the period after tax	(842.61)	1,680.96	3,363.71	2,322.61	88,018.51	89,225.47	464.02	939.02	46,326.88	4,327.35	121,626.19	128,822.30		
5. Total comprehensive income/(loss) for the period [comprising profit for the period (after tax) and other comprehensive income/(loss) (after tax)]	(3,711.47)	10,924.39	4,323.86	(21,020.22)	153,077.43	96,225.91	(3,996.42)	4,707.48	45,661.54	(32,708.66)	185,328.58	121,120.77		
6. Equity Share Capital	1,291.84	1,289.84	1,287.84	1,291.84	1,287.84	1,287.84	1,291.84	1,289.84	1,287.84	1,291.84	1,287.84	1,287.84		
7. Reserve (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance sheet of the previous year						138,434.13						171,126.55		
Earning per share (of ₹ 10 each) (not annualised)														
(a) Basic - Profit/(loss) after tax (after exceptional items)	(6.54)	13.05	26.14	18.04	684.04	693.25	(9.05)	8.00	357.64	12.85	942.74	991.38		
(a) Basic - Profit after tax (before exceptional items)	14.89	13.05	9.21	39.48	26.41	35.78	22.93	8.00	198.88	44.84	211.47	223.41		
(b) Diluted - Profit/(loss) after tax(after exceptional items)	(6.54)	12.98	25.97	17.96	679.58	689.20	(9.05)	7.96	355.31	12.79	936.60	985.58		
(b) Diluted - Profit after tax (before exceptional items)	14.82	12.98	9.15	39.30	26.24	35.57	22.82	7.96	197.58	44.63	210.09	222.10		
Note:	N		RA III		5/11	NAME OF THE PARTY	30	100.1	0.0	0.00				

1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as modified by circular no. CIR/CFD/FAC/62/2016 dated

July 05, 2016. The full format of the Quarterly financial results are available on the Stock Exchange websites (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and on the company's website (www.infoedge.in). 2. The above results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind AS) as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 3 of Companies (Indian Accounting Stardards) Rules, 2015 and Companies (Indian Accounting Stardards) Rules, 2015 and Companies (Indian Accounting Stardards). Accounting Standards) Amendment Rules, 2016.

Place : Noida Date: February 10, 2023

Hitesh Oberoi Managing Director DIN: 01189953